

दूरभाष Phone : 27201181  
(EPABX)  
फैक्स Fax : 040-27200286  
ई-मेल e-mail : [iism.soi@gov.in](mailto:iism.soi@gov.in)  
वेबसाइट Website : [www.iism.nic.in](http://www.iism.nic.in)



राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान  
उप्पल, हैदराबाद, तेलंगाना- 500 039  
NATIONAL INSTITUTE FOR GEO-INFORMATICS  
SCIENCE & TECHNOLOGY  
UPPAL, HYDERABAD, TELANGANA - 500 039

**ROUTINE ORDER NO. C- 11 / 37-G-9 / NIGST DATED 30<sup>th</sup> DECEMBER, 2024**

वर्ष 2025 के दौरान अपर महासर्वेक्षक, राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यालय में निम्नलिखित छुटियाँ मनाई जाएंगी।

The following closed holidays will be observed in the office of National Institute for Geo-Informatics Science & Technology, Survey of India during the year 2025.

**GAZETTED HOLIDAYS: 2025**

S.No.	Holiday	Date	Saka Date	Day
<b><u>1946 SAKA ERA</u></b>				
1	Pongal/ Makar Sankranti	January 14	Pausha 24	Tuesday
2	Republic Day	January 26	Magha 06	Sunday
3	Holi	March 14	Phalguna 23	Friday
<b><u>1947 SAKA ERA</u></b>				
4	Id-ul-Fitr	March 31	Chaitra 10	Monday
5	Mahavir Jayanti	April 10	Chaitra 20	Thursday
6	Good Friday	April 18	Chaitra 28	Friday
7	Budha Purnima	May 12	Vaisakha 22	Monday
8	Id-ul-Zuha (Bakrid)	June 07	Jyaishta 17	Saturday
9	Muharram	July 06	Ashadha 15	Sunday
10	Independence Day	August 15	Sarvana 24	Friday
11	Ganesh Chaturthi / Vinayaka Chaturthi	August 27	Bhadra 05	Wednesday
12	Milad-un-Nabi or Id-e- Milad (Birthday of Prophet Mohammad)	September 05	Bhadra 14	Friday
13	Mahatma Gandhi's Birthday	October 02	Asvina 10	Thursday
14	Dussehra	October 02	Asvina 10	Thursday
15	Diwali (Deepavali)	October 20	Asvina 28	Monday
16	Guru Nanak's Birthday	November 05	Kartika 14	Wednesday
17	Christmas Day	December 25	Pausha 04	Thursday

उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त वर्ष 2025 के लिए हर एक कर्मचारी/अधिकारी को निम्नलिखित वैकल्पिक अवकाश में से दो अवकाश लेने की अनुमति दी जाती है :

In addition to the above Gazetted holidays, each employee will also be permitted to avail himself / herself of any two holidays to be chosen out of the Restricted Holidays given below during the year 2025:

**RESTRICTED HOLIDAYS FOR 2025**

S.No.	Holiday	Date	Saka Date	Day
<b>1946 SAKA ERA</b>				
1	New Year's Day	January 01	Pausha 11	Wednesday
2	Guru Gobind Singh's Birthday	January 06	Pausha 16	Monday
3	Sri Panchami/Basant Panchami	February 02	Magha 13	Sunday
4	Guru Ravi Das's Jayanti	February 12	Magha 23	Wednesday.
5	Shivaji Jayanti	February 19	Magha 30	Wednesday
6	Birthday of Swami Dayananda Saraswati	February 23	Phalguna 04	Sunday
7	Maha Shivratri	February 26	Phalguna 07	Wednesday
8	Holika Dahan	March 13	Phalguna 22	Thursdays
<b>1947 SAKA ERA</b>				
9	Jamat-Ul-Vida	March 28	Chaitra 07	Friday
10	Ugadi/ Chaitra Sukladi/ Cheti Chand/Gudi Padava	March 30	Chaitra 09	Sunday
11	Ram Navmi	April 06	Chaitra 16	Sunday
12	Vaisakhi / Vishu	April 13	Chaitra 23	Sunday
13	Meshadi (Tamil New Year's Day)	April 14	Chaitra 24	Monday
14	Vaisakhadi / Bahag Bihu	April 15	Chaitra 25	Tuesday
15	Easter Sunday	April 20	Chaitra 30	Sunday
16	Birthday of Rabindranath Tagore	May 09	Vaisakha 19	Friday
17	Rath Yatra	June 27	Ashadha 06	Friday
18	Varalakshmi Vratham	August 08	Sravana 17	Friday
19	Raksha Bandhan	August 09	Sravana 18	Saturday
20	Naoraz / Janmashtami (Smarta)	August 15	Sravana 24	Friday
21	Janmashtami (Vaishnavi)	August 16	Sravana 25	Saturday
22	Onam	September 05	Bhadra 14	Friday

S.No.	Holiday	Date	Saka Date	Day
23	Bathukamma / 1st Navratra	September 22	Bhadra 30	Monday
24	Dusshera (Saptami)	September 29	Asvina 07	Monday
25	Dussehra (Mahashtami)	September 30	Asvina 08	Tuesday
26	Dussehra (Mahanavmi)	October 01	Asvina 09	Wednesday
27	Maharishi Valmiki's Birthday	October 07	Asvina 15	Tuesday
28	Karaka Chaturthi (Karwa Chouth)	October 10	Asvina 18	Friday
29	Naraka Chaturdasi	October 20	Asvina 28	Monday
30	Govardhan Puja	October 22	Asvina 30	Wednesday
31	Bhai Duj	October 23	Kartika 01	Thursday
32	Pratihar / Surya Shashthi (Chhat Puja)	October 28	Kartika 06	Tuesday
33	Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day	November 24	Agrahayana 03	Monday
34	Christmas Eve	December 24	Pausha 03	Wednesday

इन प्रतिबंधित अवकाशों को लेने के लिए पहले लिखित रूप में अनुमति लेना होगा और सामान्यतः उस वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्रधिकृत है। इसका रिकार्ड रखा जायेगा तथा आकस्मिक अवकाश दर्ज किया जायेगा।

Permission to avail oneself of these restricted holidays should be applied for in writing in advance and will normally be granted by the superior officer competent to grant casual leave except when the presence of an individual employee is considered necessary in the exigencies of Govt. work. A record will be maintained in respect of the persons availing themselves of restricted holidays.

सभी अवकाशों में तत्काल कार्य निपटाने के लिये अवकाश व्यवस्था की जायेगी और इसके लिये छुट्टी रोस्टर रखा जायेगा। अवकाश के दिन भी कर्मचारी इयूटी के लिये तैनात किया जायेगा तथा उस छुट्टी के स्थान पर आगामी किसी दिन प्रतिपूरक अवकाश में ले सकेंगे। इस प्रकार की प्रतिपूरक छुट्टी इयूटी करने के एक माह के अंदर लेने होगा, उसके उपरांत प्रतिपूरक अवकाश जमा नहीं होगा। इस प्रकार के प्रतिपूरक अवकाश राजपत्रित अधिकारियों को नहीं दिये जायेंगे।

Adequate arrangements will be made for dealing with urgent work on all holidays and a holiday roster will be maintained for this purpose. Persons so detailed on duty should, as soon as possible, be granted lieu leave on a subsequent working day to compensate for working on a holiday. This lieu leave should be taken as soon as convenient after the holiday in question (within a month) and should not be allowed to accumulate. Such compensatory leave will not be granted to Gazetted officers.



( DR. M.K. STALIN )

ADDITIONAL SURVEYOR GENERAL  
NIGST